



**Directorate of Distance Education
Kurukshetra University
Kurukshetra 136 119**

**SYLLABUS
B.A. (GENERAL) PART – III
Syllabus and Courses of Reading
Session (2019-20)**

Sr. No	Subject	Page No.
1.	English	2
2.	Hindi (Compulsory)	5
3.	Hindi (Elective)	7
4.	Punjabi (Compulsory)	9
5.	Punjabi (Elective)	11
6.	Sanskrit (Compulsory)	13
7.	Sanskrit (Elective)	16
8.	History	18
9.	Economics	27
10.	Political Science	30
11.	Sociology	33
12.	Public Administration	37
13.	Mathematics	39

B.A. Final
English Compulsory
For DDE/Private Candidates
Session 2019-20

Scheme of Examination

Total Marks : 100

Theory : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3hrs.

Prescribed Texts :

1. Kanthapura & Art-Exercise in Language use edited by Umed Singh, Pankaj Sharma, Deepti Dharmani
2. The Merchant of Venice and Developing Compositions by Deepti Dharmani, Pankaj Sharma, Umed Singh.

Instruction for Paper-setter and students

Note : All questions are compulsory

1. Explanation of two extracts out of the two texts (with internal choice) with reference to the context. 5x2=10
2. Short answer type questions : Students will be required to answer any five questions out of the given eight based on the prescribed texts. 2x5=10
3. Based on the prescribed texts, a candidate is required to attempt two long answer type questions out of the given two (with internal choice) 5x2=10
4. Students are required to write a business/official letter out of the given two. 10

5. Students are required to write a precis of the given passage of about 300 words. 8
6. a) Students will be required to write one word substitutions of any five expressions out of the given eight. $2 \times 5 = 10$
- b) Students will be required to attempt two questions on Email/Memo/Circular/RTI out of the given four topics. The questions intend to test the understanding of the basic modes of communication. $2 \times 5 = 10$
- c) Students will be required to transcribe and mark the primary stress on any five out of the given eight. $1 \times 5 = 5$

(For Blind Students only)

There will be 10 idioms/pairs of words out of which a candidate will be required to attempt any five.

- d) Students will be required to identify and transform any seven sentences (from one type to another, i.e. simple, compound and complex) out of the given ten $7 \times 1 = 7$

2. हिन्दी (अनिवार्य)

पूर्णांक : 80

आन्तरिक मूल्यांकन : 20

समय : 3 घण्टे

1. हरियाणवी लोकधारा:

- 1.1 हरियाणवी लोकधारा पुस्तक से व्याख्या के लिए चार अवतरण पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को इनमें से दो सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। प्रत्येक व्याख्या 6-6 अंकों की होगी। (6+6=12)
- 1.2 हरियाणवी लोकधारा पाठ्य पुस्तक में से किन्हीं दो रचनाकारों का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा जिनमें से परीक्षार्थियों को एक का परिचय लिखना होगा। यह प्रश्न सात अंकों का होगा। (7)
- 1.3 पाठ्य-पुस्तक की 'अनुशीलनी' में से निर्धारित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न सात अंकों का होगा। (7)
- 1.4 व्याख्या के लिए पद्यांश सभी निर्धारित-27 कवियों में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं।
- 1.5 साहित्यिक परिचय प्रश्नोत्तर केवल निम्नलिखित 11 कवियों में से ही पूछे जाएंगे: 1. गरीबदास, 2. नितानन्द, 3. अहमदबख्श थानेसरी, 4. दीपचन्द 5. बाजेभगत, 6. लख्मीचन्द, 7. मांगेराम, 8. रामकिशन व्यास, 9. फौजी मेहर सिंह, 10. जगदीश चन्द्र वत्स, 11. हरिकेश पटवारी।

2. प्रयोजनमूलक हिन्दी और काव्यांग :

- 2.1 प्रयोजन मूलक हिन्दी और काव्यांग पुस्तक से चार प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षा को दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 8-8 अंकों का होगा। (8+8=16)
- 2.2 काव्यांग से रस (विविध रस भेद) और अलंकार अनुप्रास, श्लेष, यमक, वीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण निर्धारित हैं। इनमें दो रसों के और दो अलंकारों के उदाहरण सहित लक्षण पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को एक रस और

अलंकार के सोदाहरण लक्षण लिखने होंगे। यह प्रश्न $4\frac{1}{2} + 4\frac{1}{2} = 9$ अंकों का होगा।

- 2.3 निर्धारित समग्र पाठ्य-पुस्तक से छः लघुतरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को तीन प्रश्नों के उत्तर (250 शब्दों में) देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पाँच अंकों का होगा
पूरा प्रश्न 15 अंकों का होगा (5+5+5=15)

3. हिन्दी साहित्य का इतिहास (आदिकाल एवं मध्यकाल) इसमें से चार प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न सात-सात अंकों के होंगे। हिन्दी साहित्य का इतिहास (आदिकाल एवं मध्यकाल) का पाठ्य-विषय: (1) हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन, (2) आदिकाल का नामकरण, (3) आदिकाल की परिस्थितियाँ, (4) आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, (5) भक्तिकालीन परिस्थितियाँ, (6) संत-काव्यधारा की विशेषताएं, (7) प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषताएं, (8) रामकाव्यधारा की विशेषताएं, (9) कृष्णकाव्यधारा की विशेषताएं, (10) भक्तिकाल : स्वर्णयुग, (11) रीतिकाल की परिस्थितियाँ, (12) रीतिकाल का नामकरण (13) रीतिकाल की विशेषताएं, (14) रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं (7+7=14)

4. पाठ्य ग्रन्थ :

1. हरियाणवीलोकधारा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी और काव्यांग
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, म.द.वि. रोहतक

3. हिन्दी (ऐच्छिक)

पूर्णांक : 80

आन्तरिक मूल्यांकन : 20

समय : 3 घण्टे

1. आँसू :

(24 अंक)

प्रदत्त चार काव्यांशों में से दो की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। पूछे गये दो समीक्षात्मक प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। व्याख्या के लिए 8+8=16 तथा समीक्षात्मक प्रश्न के लिए आठ अंक निर्धारित होंगे।

2. महामोज :

(8+8=16)

प्रदत्त दो गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। पूछे गये दो समीक्षात्मक प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। व्याख्या के लिए 8 तथा समीक्षात्मक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं।

3. हिन्दी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल)

(15+15=30)

निर्धारित प्रश्नों (आधुनिक युग की परिस्थितियाँ) भारतेन्दु युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवाद नई कविता, समकालीन कविता, भारतेन्दु युगीन गद्य, हिन्दी पत्रकारिता, हिन्दी उपन्यास, हिन्दी कहानी, हिन्दी नाटक, हिन्दी निबन्ध, हिन्दी आलोचना, रेखाचित्र) में से चार प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से दो का उत्तर देना होगा। इसके लिए तीस (15+15) अंक निर्धारित हैं।

4. समीक्षा शास्त्र

(10)

निर्धारित प्रश्नों (रस : अर्थ और अवयव, रस के भेद और नौ रसों का सोदाहरण परिचय, रस-निष्पत्ति, नाटक, एकांकी, कहानी, निबन्ध, आलोचना, संस्मरण, जीवनी) में से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रश्न में कोई विकल्प नहीं होगा। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं।

पाठ्य-ग्रन्थ :

1. आँसू

जयशंकर प्रसाद

सहायक ग्रन्थ :

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, लालचन्द गुप्त 'मंगल' यूनिवर्सिटी बुक सेन्टर, कुरुक्षेत्र।
2. हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बाबू गुलाबराय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
3. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तिलक राज शर्मा, आर्य बुक डिपो, दिल्ली।
4. काव्यशास्त्र : पुष्पा बंसल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
5. काव्यांग-परिचय, अशोक शर्मा, आर्य बुक डिपो, दिल्ली।
6. काव्यांग-दीपिका, रामपत यादव, सरस्वती हाऊस, दिल्ली।

4. PUNJABI (COMPULSORY)

B.A. Part-III

ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ (ਕੰਪਲਸਰੀ)

ਬੀ. ਏ. ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ

ਕੁਲ ਨੰਬਰ : 100

ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ (ਕੰਪਲਸਰੀ)

(ਪੇਪਰ : 80 ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ : 20

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ

ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

- | | |
|--|---------|
| 1. ਚੋਣਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ | 25 ਨੰਬਰ |
| 2. ਚੋਣਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ | 25 ਨੰਬਰ |
| 3. ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ | 10 ਨੰਬਰ |
| 4. ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ | 5 ਨੰਬਰ |
| 5. ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ | 5 ਨੰਬਰ |
| 6. ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਬਦਲਣੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣਨਾ | 10 ਨੰਬਰ |

ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ

1. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾ) ਕਾਵਿ ਜੋਤਾਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।
(ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਵੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਪੀਲੂ)
2. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੰਪਾ), ਗੱਦ ਦਰਪਣ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।
ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਸ ਗੱਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ :

1. ਕਾਵਿ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਵਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਪੈਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ 20 (10+10) ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਗੱਦ ਦਰਪਣ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੱਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਦ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕੇ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ, ਸਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਗੱਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ।
4. ਇਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ।
5. ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ।
6. ਦਿੱਤੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵ ਚੂਣਨਾ, ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।

5. Punjabi (Elective)

B.A. Part III

ਬੀ. ਏ. ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ

ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ (ਇਲੇਕਟਿਵ)

ਕੁਲ ਨੰਬਰ : 100

(ਪੇਪਰ : 80 ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ : 20)

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ

ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

1. ਚੋਣਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 15 ਨੰਬਰ
2. ਚੋਣਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 15 ਨੰਬਰ
3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਆਰੰਭ ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ) 10 ਨੰਬਰ
4. ਕਾਵਿ ਰੂਪ (ਕਿੱਸਾ, ਵਾਰ, ਜੰਗਨਗਮਾ, ਕਾਫੀ, ਬਾਰਾ ਮਾਹ, ਮਹਾ ਕਾਵਿ, ਰੁਬਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜਲ) ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ (ਨਾਵਲ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਨਿਬੰਧ, ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ) 20 ਨੰਬਰ
5. ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ) 20 ਨੰਬਰ

ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ

1. ਕਾਵਿ ਜੋਤਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।
(ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਵੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਦਮੋਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪੀਲੂ)
2. ਗੱਦ ਦਰਪਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੰਪਾ.) ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।

3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ :

1. ਕਾਵਿ ਕਾਵਿ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250-300 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਪੈਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 10 (5+5) ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਗੱਦ ਦਰਪਣ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੱਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਦ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਦ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ, ਸਾਰ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਗੱਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. 1700 ਈ. ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨਿਬੰਧਮੂਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ (ਵਾਰਤਕ) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।
5. ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੈਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।

6. SANSKRIT (COMPULSORY)

B.A. Part III

Session 2018-19

कुल अङ्क : 80

आन्तरिक मूल्याङ्कन: 20

समय: 3 घण्टे

घटक I : नीतिशतक : श्लोक-संख्या 1 से 50 तक

16 अङ्क

(क) दो श्लोको का सरलार्थ। (2x5=10 अङ्क)

(ख) एक सूक्ति की व्याख्या/सार (6 अङ्क)

घटक II: अम्बिकादत्त व्यास, शिवराजविजय-प्रथम निःश्वास

16 अङ्क

(क) दो गद्यांशों का सरलार्थ। (2x5=10 अङ्क)

(ख) एक विशिष्ट पंक्ति की व्याख्या। (6 अङ्क)

घटक III: संस्कृत साहित्य का इतिहास-

16 अङ्क

रामायण, महाभारत, कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, भवभूति,

बाणभट्ट, जयदेव, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश।

घटक IV: वरदराज, लघुसिद्धान्तकौमुदी-विभक्त्यर्थप्रकरण।

(क) कारकविभक्ति-सामान्य परिचय/अशुद्धि-संशोधन/वाक्य-प्रयोग

(ख) उपपदविभक्ति - सामान्य परिचय/अशुद्धि-संशोधन/वाक्य-प्रयोग।

(कपिलदेव द्विवेदी, रचानुवादकौमुदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन,
वाराणसी।

विशेष निर्देश-

1. प्रश्न-पत्र अधिकतम 80 अङ्कों का होगा। 20 अङ्क आन्तरिक मूल्यांकन के लिये निर्धारित है।
2. प्रश्न-पत्र में कुल पाँच प्रश्न दिये जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 16 अङ्कों का होगा। प्रथम प्रश्न पाठ्यक्रम में निर्धारित चारों घटकों पर आधारित तथा अनिवार्य होगा। इसके अन्तर्गत लघु उत्तर वाले विकल्परहित आठ (8) प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक लघूत्तरात्मक प्रश्न दो (2) अङ्कों का होगा। शेष चार प्रश्नों में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक से दो वैकल्पिक प्रश्न दिये जाएँगे। परीक्षार्थी को इनमें से प्रत्येक घटक के एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा।
3. प्रश्न-पत्र हल करने का समय तीन (3) घण्टे होगा।

प्रश्नपत्र-निर्माण के लिये निर्देश :-

1. प्रश्नपत्र में कुल पाँच (5) प्रश्न दिये जाएँ। प्रश्नपत्र के लिये कुल 80 अङ्क निर्धारित है। सभी प्रश्न समानाङ्क होंगे अर्थात् प्रत्येक प्रश्न सोलह (16) अङ्कों का होगा। प्रश्न-पत्र हल करने का समय तीन (3) घण्टे होगा।
2. प्रथम-प्रश्नपाठ्यक्रम के चारों घटकों में निर्धारित विषयों के आधार पर बनाया जाए। यह प्रश्न अनिवार्य होगा। इसके अन्तर्गत लघु उत्तर वाले विकल्परहित आठ (8) प्रश्न पूछे जाएँ। प्रत्येक लघूत्तरात्मक प्रश्न दो (2) अङ्कों का होगा।
3. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम प्रश्न का निर्माण पाठ्यक्रम के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ घटक में निर्धारित विषय के आधार पर किया जाए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक से दो वैकल्पिक प्रश्न देकर परीक्षार्थी से प्रत्येक घटक से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा जाए।

7.SANSKRIT (ELECTIVE)

Scheme of Examination for B.A. Part III in the Subject of Sanskrit (Elective)
Annual System, Distance Education Mode) w.e.f. Session 2018-2019

कुल अङ्क : 80

आन्तरिक मूल्याङ्कन: 20

समय: 3 घण्टे

घटक 1. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल - प्रथम से सप्तम अङ्क तक। कुल 16 अङ्क

(क) दो पाट्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। (2x5=10 अङ्क)

(ख) एक सूक्ति की व्याख्या अथवा निर्धारित अङ्कों में से किसी अङ्क का
सार अथवा एक आलोचनात्मक प्रश्न। (6 अङ्क)

घटक 2. कालिदास: जीवन-परिचय, काल-विवेचन, कालिदास की कृतियों में
जीवन-दृष्टि, राष्ट्रीय भावना, प्रकृति-चित्रण, काव्य-शैली,
नाट्य-शैली अलङ्कार-प्रयोग) 16 अङ्क

घटक 3. संस्कृत साहित्य का इतिहास : 16 अङ्क

वैदिकसाहित्य-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाङ्ग साहित्य।

लौकिक साहित्य - वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, अम्बिकादत्त व्यास,

भारवि, विष्णुशर्मा, भर्तृहरि, जयदेव (लेखकों और उनकी कृतियों का

सामान्य परिचय)। 16 अङ्क
8 अङ्क

घटक 4. (क) वरदराज, लघुसिद्धान्तकौमुदी- 8 अङ्क

1. विभक्त्यर्थप्रकरण : सूत्रव्याख्या/वाक्य-रचना/अशुद्धि-संशोधन।

2. स्त्रीप्रत्ययप्रकरण : उदाहरणसहित सूत्रव्याख्या।

(ख) अलंकार : अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति विशेषोक्ति, विभावना, अर्थान्तरन्यास।

(भेदोपभेद को छोड़कर केवल लक्षण, उदाहरण एवं संगति) 8 अङ्क

विशेष निर्देश :-

1. प्रश्न-पत्र अधिकतम 80 अङ्कों का होगा। 20 अङ्क आन्तरिक मूल्यांकन के लिये निर्धारित है।
2. प्रश्न-पत्र में कुल पाँच प्रश्न दिये जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 16 अङ्कों का होगा। प्रथम प्रश्न पाठ्यक्रम में निर्धारित चारों घटकों पर आधारित तथा अनिवार्य होगा। इसके अन्तर्गत लघु उत्तर वाले विकल्परहित आठ (8) प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक लघुत्तरात्मक प्रश्न दो (2) अङ्कों का होगा। शेष चार प्रश्नों में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक से दो वैकल्पिक प्रश्न दिये जाएँगे। परीक्षार्थी को इसमें से प्रत्येक घटक के एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा।
3. प्रश्न-पत्र हल करने का समय तीन (3) घण्टे होगा।

प्रश्नपत्र-निर्माण के लिये निर्देश :-

1. प्रश्नपत्र में कुल पाँच (5) प्रश्न दिये जाएँ। प्रश्नपत्र के लिये कुल 80 अङ्क निर्धारित है। सभी प्रश्न समान अङ्क होंगे अर्थात् प्रत्येक प्रश्न सोलह (16) अङ्कों का होगा। प्रश्न-पत्र हल करने का समय तीन (3) घण्टे होगा।
2. प्रथम प्रश्न पाठ्यक्रम के चारों घटकों में निर्धारित विषयों के आधार पर बनाया जाए। यह प्रश्न अनिवार्य होगा। इसके अन्तर्गत लघु उत्तर वाले विकल्परहित आठ (8) प्रश्न पूछे जाएँ। प्रत्येक लघुत्तरात्मक प्रश्न दो (2) अङ्कों का होगा।
3. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम प्रश्न का निर्माण पाठ्यक्रम के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ घटक में निर्धारित विषय के आधार पर किया जाए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक से दो वैकल्पिक प्रश्न देकर परीक्षार्थी से प्रत्येक घटक से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा जाए।

8. HISTORY

SCHEME OF EXAMINATION w.e.f. 2018-2019

Paper No.	Nomenclature	Internal Assessment	Theory Paper Marks	Total Marks	Time
Option-I	Ancient and Medieval World	20	80	100	3 Hrs.
Option-II	Modern World	20	80	100	3 Hrs.
Option-III	East Asia in Modern Times	20	80	100	3 Hrs.

Syllabus and Course of Reading

Option-(I) Ancient and Medieval World

Max. Marks : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note :

1. The question paper will consist of nine questions. The Candidates shall attempt five questions in all. The questions No. 1 will be compulsory. The Candidate shall attempt four more questions selecting at least one from each Unit. Each question will carry 16 marks.
2. The Question no. 1 will be short-answer type containing four questions of equal marks (i.e. 4 marks each) spread over the whole syllabus.
3. The Map Question will be carrying 16 marks (10 for map work and 6 for explanatory note). For visually handicapped candidates, the part relating to the explanatory note will carry full marks.

Unit - I

Evolution of Humankind: Paleolithic and Mesolithic Cultures

Beginning of Agriculture and Animal Husbandry.

Amar Faruqqi	Prachin Aur Madhyakaline Samajik Sanrachanayain Aur Sanskritiya (Hindi)
B. Trigger	Ancient Egypt: A Social History
Baj Shaoyi	An Outline History of China
Bernard Lewis	The Arabs in History
Bums and Ralph	World Civilizations
C. Stephenson	Medieval Feudalism
C.E. Bosworth and Joseph Schachs	The Legacy of Islam
Carl Stephenson	Medieval History of Europe from 2nd to 16th Century
Dominique Sourdel	Medieval Islam
G. Clark	World Prehistory : A New Perspective
G. Rook	Ancient Iraq
Glyn Daniel	First Civilizations
H.A.R. Gibo	Mohammedanism: A Historical Survey
H.W.F. Sagg's	The Greatness that was Babylon
Herbert Heaton	Economic History of Europe
J.W. Thompson	Middle Ages. 2 Vols
Jacquetta Hawkes	First Civilizations
K.P. Shahu	Islam: Udbhav Aur Vikas (Hindi)
M.I. Finley	The Ancient Economy
March Bloch	Feudal Society, Vols. I and II
Margaret Deanesly	A History of Early Medieval Europe
Maurice Keen	A History of the Medieval Europe
Montgomery Watt	Muhammad in Mecca and Madina
P.K. Hitti	History of the Arabs
R. Levy	The Social Structure of Islam
R.J. Wenke	Patterns in Prehistory
Rober Latouche	The Birth of Western Economy
S.N. Kramer	The Sumerians
Shepard B. Clough	The Economic Development of Western Europe

Shri Ram Goyal
Solomon Katz
V. Gordon Childe
V.L. Aleveev

Vishaw ki Sabhyatayen (Hindi)
The Social Structure of Islam
What Happened in History
The Origins of the Human Race

B.A.(General) History Part-III
Option-(II) Modern World

Maximum Marks : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note :

1. This question Paper will Consist of nine questions. The candidates shall attempt five questions in all. The question No. 1 will be compulsory. The Candidate shall attempt four more questions selecting at least one from each
2. The Question No.1 will be short answer type containing four question of equal marks (i.e. 4 marks each) spread over the whole syllabus.
3. The Map Question will be carrying 16 Marks (10 for map work and 6 for explanatory note). For Visually handicapped candidates, the part relating to the explanatory note will carry full marks.

Unit - I

Transition from Feudalism to Capitalism in Europe

Renaissance: Origins, Emergence and Impact.

Reformation: Origins, Emergence and Impact.

Age of Enlightenment

Economic Development during 16th Century: Shift of Economic Balance from the Mediterranean to Atlantic Region.

Old Colonial System: Motives and Consequences of Colonization in Americas

Unit - II

Mercantile Revolution : Origins, Progress and Impact

Scientific Revolutions: Agricultural Revolution and Industrial Revolution

Glorious Revolution: Nature and Impact

American Revolution: Nature and Impact

French Revolution: Nature and Impact

Unit - III

Rise of Imperialism: Causes and Consequences

World War-I Causes and Consequences

Paris Peace Settlement: Important Treaties - Provisions and Consequences

Rise of Socialism and Bolshevik Revolution in Russia.

Rise of Dictatorship : Nazism and Fascism

World War-II : Causes and Consequences

Rise of Dictatorship: Nazism and Fascism

Unit - IV

Maps (Europe/World)

Important Centers of Renaissance in Europe

Important Centers of Reformation in Europe

Major Places Connected with Industrial Revolution in World

Polarization of Countries before World War-I

Polarization of Countries before World War-II

Suggested Readings

Barrachough, G.

Bronowski, J., and Bruce Mazlish

Carr, E.H.

Chauhan, D.S.

Chauhan D.S.

Cipolla, Carlo M.

Coleman, D.C. (ed.)

Davis, H.A. (ed.)

Davis, Ralph

Dobb, Maurice

Fisher, H.A.L.

An Introduction to Contemporary History (Penguin, 1968)

The Western Intellectual Tradition (Ayer Co., 1960)

The Bolshevik Revolution, 1917-23, 3 Vols. (Macmillan, 1950, 1951 and 1953)

Europe ka Itihas (Hindi)

Samkalin Europe (Hindi)

Fomtana Economic History of Europe Vols II and III.

Revisions of Mercantilism

Outline History of the World

The Rise of the Atlantic Economics

Studies in the Developments of Capitalism

A History of Europe.

Gupta, Parthasarthi (ed.)	Adhunik Paschim ka Uday (Hindi)
Gupta, ParthaSarathi (ed.)	Europe ka Itihas (Hindi)
Hall, J.R.	From Galileo to Newton
Henderson, O.P.	The Industrial Revolution on the Continent
Hill. Christopher	From Reformation to Industrial Revolution (Penguin, 1970)
Hill, Christopher	Lenin and the Russian Revolution, (Penguin, 1978)
Hilton, Rodney	Transition From Feudalism to Capitalism
Hobsbawm, E.J.	The Age of Revolution
Joll, James	Europe Since 1870 : an International History (Harper Row, 1973)
Joll, James	1870 Se Europe (Hindi)
Langer, W.L.,	Diplomacy of Imperialism
Lefebvre, Georges	Coming of the French Revolution (Princeton, 1989)
Morgan, K.O.	Oxford Illustrated History of Britain 1789-1983
Palmer, R.A. and Cotton Joel	A History of Modern World (McGraw 1982)
Parker, G.	Europe in Crisis 1598-1648
Parks, H.B.	The United States of America
Parry, J.P.	The Age of Renaissance
Porter, Andrew	European Imperialism, 1860-1914
Roberts, J.M.	Europe 1880-1945
Rude, George	Revolutionary Europe (1984)
Saboul, A.	The French Revolution
Stavrianes, L.S.	The World Since 1500 (1928)
Stephen, I. Lee	Aspects of European History 1494-1789
Taylor A.J.P.	The struggle for mastery in Europe (OUP, 1954)

Taylor A.J.P.
Thompson, David

The Origins of the Second World War
Europe Since Napoleon (Penguin,
1966)

Wu, Anthony

History of Europe 1915-1960

B.A. (General) History Part-III

Option-(III) East Asia in Modern Times

Maximum Marks : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note :

1. The question paper will consist of nine questions. The candidates shall attempt five questions in all. The question No. 1 will be compulsory. The Candidates shall attempt four more questions selecting at least one from each unit. Each question will carry 16 Marks.
2. The Question No. 1 will be short answer type containing four questions of equal marks (i.e., 4 marks each) spread over the whole syllabus.
3. The Map Question No. 1 will be carrying 16 Marks (10 for map work and 6 for explanatory note). For visually handicapped candidates, the part relating to the explanatory note will carry full marks.

Unit - I

The Canton System in China and Opium Wars

Anti-Imperialist Movement: Boxer Uprising

Dr. Sun Yat Sen: Ideology and Contribution

The Chinese Revolution of 1911: Causes, Course and Significance

The May Fourth Movement: Causes, Course and Impact

Communist Revolution of 1949: Causes, Course and Significance

Unit - II

The Meiji Restoration in Japan: Causes, Progress and Significance

Foreign Policy of Japan (1900-1919)

Militarism in Japan: Causes, Process and Consequences

Japan and World War-II: Involvement and Consequences

Japan after World War - II: New Political System

Unit - III

Industrial and Agricultural Transformation in Japan after Meiji Restoration
Socio-Cultural Change in Japan after Meiji Restoration
Land Collectivization, Industrialization and Other Economic Changes in China after 1949
Cultural Revolution in China
Economic, Social and Educational Remodeling in Japan during 1945-1960

Unit - IV

Maps (China/Japan)
European Colonial Expansion in China
Areas of Anti-Imperialist Movement in China
Important Ports Opened for Western Powers in Japan
Major Industrial Centers of Japan Emerged during 1949-1960
Route of Long March in China

Suggested Reading:

George Allen	A Short Economic History of Japan
G. Beasley	The Modern History of Japan
Jean Chesneaux et.al.	China from Opium War to 1911 Revolution
Jean Chesnoaux, et.al.	China from the 1911 Revolution to Liberation
Tan Chuntg Triton and Dragon	Studies on the Nineteenth Century China and Imperialism
John K. Faribank, et.al	East Asia: Modern Transformation
Mikiso Hane,	Modern Japan: A Historical Survey
Y. Immanuel Hus.,	The Rise of Modern China
Chalmers A. Johnson	Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Red China, 1937-1945
John. Livingstone, et.al.,	The Japan Reader (Imperial Japan: 1800, 1945) Vol. I.

F.H. Norman

Nathaniel Peffer,

Victor Purcell

Kenneth B. Pyle.

Frauz Schurmann and Orville Schell (ed.)

Benjamin I. Schwartz

Hu Sheng

Chow Tse Tung

Mao Tso Tung

Mary C. Wright

P.H. Clyde

P.H. Clyde

Vinayake

Japan's Emergence as Modern State

The Far East: A Modern History

The Boxer Uprising: A Background Study

The making of Modern India

China Readings, 2 Volumes (Imperial China and Republican China)

Mao and the Rise of Chinese Communism

Imperialism and Chinese Politics

The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modern China

Selected Writings

China in Revolution: The First Phase (1900-1913)

For East

Sudhur Purva (Hindi)

Poorvi Asia ka Itihas (Hindi)

9.ECONOMICS

Max. Marks : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note : The question paper will carry a maximum of 80 Marks and it will consist of nine questions out of which the candidates would be required to attempt five questions. Each question will carry 16 marks. The First question will be compulsory and it will include objective-type questions (10 Marks) and short-definitional type questions (6 Marks) uniformly spread over both parts of the syllabus. The remaining 8 questions will include 2 questions from each of the four units and candidates would be required to attempt one question from each unit.

Preamble

The Part-A of this paper entitled "Development and Environmental Economics" is intended to enable the students to know about theories of growth and development. This part also deals with issues relating to sustainable development, environmental protection and pollution control.

The Part-B of this paper entitled "International Economics" is designed to provide the students thorough understanding and deep knowledge about the basic principles that tend to govern the free of trade in goods and services at the global level. It also lays stress both on theory and applied nature of the subject that have registered rapid changes during the last decade

Part-A

Development and Environmental Economics

Unit-I

Economic growth and development; Determinants and measurement of development; Vicious circle of poverty, Development with unlimited supply of labour, Balanced and Unbalanced growth, Critical Minimum Effort Thesis (Harvey Leibenstein).

Unit-II

Environment as a necessity and luxury, Population-environment linkage; Market Failure in case of environmental goods; Environment as a public good; Prevention and control of Pollution; Environmental legislation, Meaning, importance and indicators of sustainable development.

Part - B

International Economics

Unit-III

Inter-regional and international trade, Comparative advantage theory; Heckcherohlin theory; Gains from trade-their measurement and distribution: Trade as an engine of economic growth.

Unit-IV

Meaning of balance of payments equilibrium; Causes and efforts of BOP disequilibrium and corrective measures; Foreign trade multiplier, Functions of IMF, World Bank and WTO; Changes in the composition and direction of foreign trade of India since 1991; Causes of Persistent deficit in India's BOP and corrective measures; Trade reforms in India.

Reading List

1. Adelmnan, I. (1961): Theories of Economic Growth and Development, Standford University Press, Standford.
2. Behraman, S. and T.N. Srinivasan (1995) : Handbook of Development Evenomics, Vol. 1 to 3, Elsevier, Amsterdam.
3. Ghatak, S. (1986): and Introduction to Development Economics, Allen and Unwin, London.
4. Hayami, Y. (1997) : Development Economics, Oxford University Press, New York.
5. Higgins B. (1959) : Economic Development, Norton, New York.
6. Kindleberger, C.P. (1977) : Economic Development, McGraw Hill, New York.
7. Meier, GM. (1995) : Leading issues in Economic Development, Oxford University Press, New Delhi
8. Myint, Hla (1971) : Economic Theory and Under-developed Countries.

Oxford University Press, New York

9. Thirwall, A.P. (1999) : 6th Edition, Growth and Development, Macmillan, London.
10. Kenanr, P.B. (1994) : The International Economy, Cambridge University Press, London.
11. Kindleberger, C.P. (1973) : International Economics, R.D. Irwin, Homewood.
12. Krugman, P.R. and M. Obstgeld (1994) : International Economics : Theory and Policy, Glenview, Foresman.
13. Salvatore, D.L. (1997) : International Economics, Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J.
14. Sodersten, Bo (1991) : International Economics, Macmillan Press Ltd., London.

10. POLITICAL SCIENCE

Paper Opt. (i) Comparative Government and Politics
(Government and Politics of U.K. U.S.A., China Switzerland)

Maximum Marks : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note : Total 10 questions to be set : four each from Part-A and B and two from Part-C. Candidates will have to attempt five questions in all selecting at least one question from each part.

Part-A

Approaches to the Study of Comparative Politics

Constitutions and Constitutionalism

Historical Legacy and Political Traditions

Constitutional Structure : Executive, Legislature and Judiciary Political Culture.

Part-B

Political Parties and Party Systems

Interest Groups and Pressure Groups

State and Local Governments

Socio-economics bases of the Constitution

Women and the Political Process

Part-C

Short-answer questions, at least four spread over the entire syllabus. Objective type (Multiple Choice) questions spread over the whole syllabus.

Readings :

1. G. Almond et al., Comparative Politics Today: A World View, 7th ed, New York London, Harper/Collins, 2000.
2. W. Bagehot, The English Constitution, London, Fontana, 1963.
3. A.H. Birch, British System of Government, 4th ed, London Weidenfeld and Nicolson, 1969
4. J. Blondel, An Introduction to Comparative Government, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969.

5. J. Blondel, *Comparative Legislatures*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1973.
6. J. Bryce, *Modern Democracies*, Vol. 2, New York, Macmillan, 1921.
7. I. Derbyshire, *Politics in China*, London, Chambers, 1991.
8. H. Finer, *Theory and Practice of Modern Government*, London, Methuen, 1969.
9. S.E. Finer, *Comparative Government*, Harmondsworth, Penguin, 1974.
10. J. Gittings, *China changes Face : The Road from Revolution 1949-89* London, Oxford University Press, 1989.
11. E.S. Griffith, *The American System of Government*, 6th ed, London. Methuen, 1983.
12. H. Harding, *China's Second Revolution : Reform after Mao*, Washington DC, Brookings Institution, 1987.
13. Inter-Parliamentary Union, *Women in National Parliaments*, 2000.
14. D. Kavangh, *British Politics : Continuity and Change*, Oxford, Oxford University Press, 1985.
15. H.J. Laski, *American Democracy : A Commentary and an Interpretation*, London, Unwin, 1948.
16. A. Lijphart, *Electoral Systems and Party System*, New Haven CT, Yale, University Press, 1994.
17. A. Lijphart, (ed.), *Parliamentary Versus Presidential government* , Oxford and New York, Oxford University Press, 1992.
18. A. Lijphart, *Democracies : Patterns of Majoritarian and Consensual Government in Twenty-one Countries*, New Haven CT, and London, Yale University Press, 1992.
19. KC. Macridis and R.E. Ward, *Modern Political Systems : Europe, and Asia*, 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1968.
20. P. Maddex, *Constitutions of the World*, 2nd edn., Washington DC and London, CQ Press, 2000.
21. P. Mair, *The West European Party System*, Oxford, Oxford University Press, 1990.
22. T. Munro, *The Governments of Europe*, New York, Macmillan, 1963.

23. B. Nelson and N. Chowdhary (ed.) Women and Politics Worldwide, Delhi, Oxford University Press, 1997.
24. D. Olson, Legislative Institutions : A Comparative view, Armonk NY, M.E.Sharpe, 1994.
25. V. Randall, Women and Politics : An International Perspective, 2nd ed. Chicago, University of Chicago Press, 1987.
26. M. Rhodes, P. Heywood and V. Wright, Development in West European Politics, Basingstoke, Macmillan, 1997.
27. KC. Wheare, Federal Government, 4th ed. Oxford and New York, Oxford University Press, 1963.
28. J. Wilson, American Government, 4th ed, Boston Massachusetts, Houghton Mifflin, 1987.

11. SOCIOLOGY

B.A. Part III

Social Problems in India

(Optional -II)

Maximum Marks : 100

Theory : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note : The Paper setter shall set 8 questions from all four units with internal choice. However, one compulsory question of short answer type would be set from the entire syllabus comprising Four Sub-questions of four marks each under 5th Unit. Such way, the examinees are required to attempt five questions in all, of 16 Marks each.

Unit-I

Social problems : Concept, Meaning and types; Importance of the Study of Social Problems: Poverty; Alcoholism, Drug Addiction, Black Money and Corruption.

Unit-II

Structural Issues : Social Justice and Inclusive Development; Inequality of Caste, Class and Gender; Developments of Minorities, Backward Classes and Dalits.

Unit-III

Gender Issues and Legislative Measures : Patriarchy and Gender Discrimination; Female Foeticide, Dowry, Domestic Violence, Divorce and Protective Measures for women

Unit-IV

Social Disorganization : Unemployment, Delinquency, Child Abuse, HIV/AIDS, Suicides.

Readings :

Ahuja, Ram (2000) : Social Problems in India, New Delhi : Rawat Publications.

Beteille, Andre (1992) : Backward Classes in contemporary India, New Delhi :

OUP

Beteille, Andre (1974) : Social Inequality, New Delhi : OUP

- Bereman, G.D. (1978): **Caste and Other Inequalities: Essay in Inequality**, Meerut: Folklore Institute.
- Dube, Leela (1997) : **Women and Kinship, Comparative Perspective on Gender in South and Southeast Asia**, New Delhi: Sage Publication.
- Desai, Neera & Usha Thakkar (2007): **Women in Indian Society**, National Book Trust, India.
- Gadgil, Madhav and Ramchandra Guha (1996): **Ecology and Equality The use and abuse of nature in Contemporary India**, New Delhi: OUP
- Gill, S.S. (1998): **The Pathology of corruption**, New Delhi: Harper Collin Publishers
- Lewis, Oscar (1966): **Culture of Poverty "Scientific American"** Vol-II and V No. IV PP-19-25.
- Satya Murty, T.V. (1966.) **Region, Religion, Caste, Gender and Culture in Contemporary India**, New Delhi: OUP

B.A. Part III

Population and Society

(Optional-III)

Maximum Marks : 100

Theory : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note : The Paper setter shall set 8 questions from all four units with internal choice. However, one compulsory question of short answer type would be set from the entire syllabus comprising Four Sub-questions of four marks each under 5th Unit. Such way, the examinees are required to attempt five questions in all, of 16 Marks each.

Unit-I

Population Studies : Meaning, Scope and Significance, Fertility, Mortality and the Determinants; Migration- Types and factors.

Unit-II

Theoretical Issues : Biological, Malthusian and Neo-Malthusian Theory; Demographic Transition; Optimum Population.

Unit-III

Composition of Population in India : Age and Sex Structure, Problem of Sex-ratio Decline; Religious Composition, Rural and Urban Dimension, Occupational Structure; Literacy-illiteracy.

Unit-IV

Population Planning and Control : Family Planning Programme, Population Policy of India, National Rural Health Mission, Menace of Female Foeticide; Female centered welfare measures in India and Haryana.

Readings:

Agarwal, S.N. (1989): **Population Studies with Special Reference to India**, New Delhi: Lok Surjeet Publication.

Bose, Ashish (1991): **Demographic Diversity in India**, Delhi: B.R. Publishing Corporation.

Banarjee, D. (1985) : **Health and family planning services in India**, New Delhi: Lok Parkashan.

Chandrasekhar, S. (ed.) (1974) : **Infant Mortality, Population Growth and family Planning in India**, London George Alen and Unwin Ltd. Dubey, Surendra Nath(2001): **Population of India**, Delhi: Authors Press.

Kohli, S. (1977): **Family Planning in India**, New Delhi.

Malthus, T.R. (1986): **An Essay on the Principle of Population**, London: William Pickering.

Premi, M.K. (2004): **Social Demography**, Delhi: Jawahar Publishers and Distributors.

Sharma, Rajendra (1997): **Demography and Population Problems**, New delhi: Atlantic Publishers.

Srivastava, O.S. (1998): **Demography and Population Studies**, New Delhi: Vikas Publishing House.

National Rural Health Mission (2006.), Govt. of India, New Delhi.

12. PUBLIC ADMINISTRATION

B.A. Part III

(Local Government and Administration)

Maximum : 80

Internal Assessment : 20

Time : 3 Hours

Note : The Candidates will be required to attempt five questions, atleast one question from each unit.

Unit-I One Compulsory question comprising of 8 objective type questions of 2 Marks each covering the whole syllabus.

Unit-II Local Government: Meaning and Significance, Evolution of Local, Government in India since 1882. Administrative Growth of Rural Development, Institutions in India since Independence. 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts..

Unit-III Urban Local Bodies: Municipal corporation, Municipal Council and Municipal Committee-their meaning, Composition, Features and significance with special reference to Haryana and Punjab. State Government's control over Muncipal Bodies .

Unit-IV Rural Local Bodies: Composition, Functions, Sources of income of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad. Composition, Functions and Significance of District Planning Committee. Problems of Rural Urban Relationship.

Unit-V District Administration: its features, purposes and problems. Role of Deputy Commissioner in the context of planning and Development at district level. Role of Divisional Commissioner, State Headquarter's Control over district Administration. Rural Development and Information Technology.

Books Recommended:

1. K.K. Puri: Local Government, Bharat Prakashan, Jalandhar.
2. S.R. Maheswari: Local Government in India, Laxmi Narain Aggarwal, Agra.
3. Sahib Singh & Surinder Singh: Local Government, New Academic-Publishing Company, Jalandhar.
4. V.K. Puri: Local Government and Administration, Modern Publishers, Jalandhar

13. MATHEMATICS

Paper-I : BM-301 : Analysis

Maximum Marks : 27

Internal Assessment : 6

Time : 3 Hours

Section-I (3 Questions)

Riemann integral, Integrability of continuous and monotonic functions. The fundamental theorem of integral calculus, Mean value theorems of integral calculus. Improper integrals and their convergence, Comparison tests, Abel's and Dirichlet's tests. Frullani's integral. Integral as a function of a parameter. Continuity, derivability and integrability of an integral of a function of a parameter.

Section-II (2 Questions)

Series of arbitrary terms. Convergence, Divergence and Oscillation. Abel's and Dirichlet's tests. Multiplication of series. double series. Fourier Series Fourier Expansion of piece-wise monotonic functions. Partial derivatives and differentiability of real-valued functions of two variables. Schwarz's and Young's theorem. Implicit function theorem.

Section-III (2 Questions)

Stereographic projection of complex numbers. Continuity and differentiability of complex Function's Analytic Functions. Cauchy-Riemann equations. Harmonic functions. Elementary functions. Mapping by elementary functions. Mobius transformations. Fixed Points Cross ratio. Inverse Points and critical mappings.

Section-IV (3 Questions)

Definition and examples of metric spaces. Neighbourhoods. Limit points. Interior points. Open and closed sets. Closure and interior. Boundary points Subspace of a metric space. Cauchy sequences. Completeness. Cantor's Intersection theorem. Contraction principle. Construction of real numbers as a complete ordered field. Dense subsets. Baire category theorem. Separable, Second Countable and first

countable spaces. Continuous functions. Extension theorem. Uniform continuity. Isometry and homeomorphism. Equivalent metrics. compactness. Sequential compactness. Totally bounded spaces. finite intersection property. Continuous functions and compact sets. Connectedness components. Continuous functions and connected sets.

Note : The examiner is required to set ten questions in all, selecting questions section-wise as indicated in the syllabus. The candidate is required to attempt five questions, selecting at least one question from each section.

Books Recommended :

1. T.M. Apostol : Mathematical Analysis, Narosa Publishing House, New Delhi, 1985.
2. R.R. Goldberg, Real Analysis, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1970.
3. S. Lang: Undergraduate Analysis, Springer-Verlag, New York, 1983.
4. D. Somasundaram and B. Choudhary : A first Course in Mathematical Analysis, Narosa Publishing House, New Delhi, 1997.
5. Shanti Narayan: A Course of mathematical Analysis, S. Chand & Co., New Delhi.
6. R.V. Churchill & J.W. Brown : Complex variables and Applications, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 1990.
7. Shanti Narayan : Theory of Functions of a Complex Variable, S. Chand & Co. New Delhi.
8. E.T. Copson, Metric Spaces, Cambridge University Press, 1968.
9. G.F. Simmons : Introduction to topology and Modern Analysis, McGraw-Hill 1963.

Paper-I : BM-302 : Abstract Algebra

Maximum : 26

Internal Assessment : 7

Time : 3 Hours

Section-I (3 Questions)

Group-Automorphisms, inner-automorphism, Automorphism groups and their computations. Conjugacy relation Normaliser. Counting Principle and the class equation of a finite group. Center for Group Prime-order Abelianizing of a group and its universal property. Sylow's Theorems. P-Sylow's subgroup. Structure theorem for finite Abelian groups.

Section-II (2 Questions)

Ring theory-Ring homeomorphism. Ideals and Quotient Rings. Field of Quotients of an Integral Domain. Euclidean Rings. Polynomial Rings Polynomials over the Rational Field. The Eisenstein Criterion. Polynomial Rings over Commutative Rings. Unique factorization domain R unique factorisation domain implies so is $R[X_1, X_2, \dots, X_n]$

Section-III (3 Questions)

Definition and examples of vector spaces, Subspaces. Sum and direct sum of subspaces. Linear span. Linear dependence, independence and their basic properties Basis. Finite dimensional vector spaces. Existence theorem for bases. Invariance of the number of elements of a basis set. Dimension. Existence of complementary subspace of a finite dimension. Existence of complementary Subspace of a finite dimensional vector space. Dimensional of sums of subspaces. Quotient space and its dimension. Linear transformations and their representation as matrices. The algebra of linear transformations. The rank nullity theorem. Change of basis. Dual space, Bidual space and natural isomorphism. Adjoint of a linear transformation. Eigenvalues and eigenvectors of a linear transformation Diagonalisation. Annihilator or a Subspace Bilinear, Quadratic and Hermitian forms.

Section - IV (2 Question)

Inner product spaces-Cauchy-Schwarz inequality. Orthogonal vectors. Orthogonal Complements. Orthonormal sets and bases. Bessel's inequality for finite dimensional spaces. Gram-Schmidt Orthogonalization process. Modules.

submodules. Quotient Modules. Homeomorphism and Isomorphism theorems.

Note: The examiner is requested to set ten questions in all, selecting questions section-wise as indicated in the syllabus. The candidate is required to attempt five questions selecting at least one question from each section.

Books Recommended:

1. I.N. Herstein : Topics in Algebra, Wiley Eastern Ltd. New Delhi, 1975.
2. N. Jacobsen: Basic Algebra Vols. I & II, W.H. Freeman, 1980 (also published by Hindustan Publishing Company.
3. P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpal : Basic Abstract Algebra (2nd edition.)
4. K. Hoffman and R. Kunze, Linear Algebra, 2nd Edition.
5. S.K. Jain, A. Gunawardena & P.B. Bhattacharya : Basic Linear Algebra with MATLAB.
6. Vivek Sahai and Vikas Bist: Algebra, Narosa Publishing House.
7. I.S. Luther and I.B.S. Passi: Algebra, Vol. I, Groups Vol. II Rings, Narosa Publishing House.

Paper-III BM 303 : Programming in C and Numerical Analysis

(Theory & Practical)

(Non Programmable Scientific Calculator is allowed in this paper)

Max. Marks : 20

Internal Assessment: 14

Time: 3 Hours

Section-I (3 Questions)

Programmer's model of a computer. Algorithms. Flow Charts. Data Types Arithmetic and Input/Output instructions. Decisions control structures. Decision statements Logical and conditional operators. Loop Case control structures. Functions Recursions Preprocessor. Arrays Puppeting of strings. Structures. Pointers. File formatting.

Section-II (3 Questions)

Solution of Equations: Bisection, Sectim, Regular Falsi Newton's Raphson's Method, Newton's iterative method for finding p the root of a number, Order of convergence of above methods.

Interpolation: Language and Hermite Interpolation, Divided differences. Difference Schemes, Interpolation Formulas using Differences.

Numerical Differentiation.

Numerical Quadrature: Newton-Cote's Formulas, Trapezoidal rule, Simpson's one-third and three eight rule, Gauss Quadrature formulas. Chebychev's Formulas.

Numerical Differentiation.

Numerical Quadrature: Newton-Cote's Formulas, Trapezoidal rule, Simpson's one-third and three eighth rule, Gauss Quadrature formulas. Chebychev's Formulas.

Algebraic: Gauss-elimination method, Gauss-Jordan method, Simultaneous linear Linear Equations Triangularization method (LU Decomposition), Crait's method, Cholesky Decomposition, iterative methods. (Jacobi, Guass-Seidel, Relaxation Methods.)

Algebraic Eigenvalue problem: Jacobi's Method, Given's Method. Heusehold Method, Power Method, QR Method Lanczos' Method.

Section-III (2 Questions)

Numerical solution of Ordinary Differential Equations: Euler Method modified Euler's method, Single -step Methods, Picard's method, Taylor's series method Runge-Kutta's Method, Multi-step Methods Predictor-Corrector method.

Approximation: Different types of Approximation, Least Square Polynomial Approximation, Polynomial Approximation using Orthogonal Polynomials, Approximation with Trigonometric Functions. Exponential Functions, Chebychev polynomials Rational Functions.

Section - IV (2Question)

Random number generation congruential generators, statistical tests of pseudorandom numbers.

Random variate genention, inverse transform method, Composition method, acceptance rejection method, generation of exponential, normal variates; binomial and poisson variates.

Monte Carlo integration, hit or miss Monte Carlo integration, Monte Carlo integration for improper integrals, error analysis for Monte Carlo integration.

Note : The Examiner is required to set ten questions in all, selecting questions section-wise as indicated in the syllabus. The candidate is required to attempt five questions selecting + at least one question from each section.

Practicals Practical in C is based on Numerical Analysis as in Section-II and III above.

Books Recommended :

1. B.W. Kernighan and DM. Ritchie, The C programming Language, 2nd Edition.
2. V. Rajaraman, Programming in C, prentice hall of India, 1994.
3. Byron S. Gottfried, Theory and problems of Programming with C, Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd. 1998.
4. C.E. Froberg. Introduction to Numerical Analysis (2nd Edit ion).

5. Melvin J. Maron, Numerical Analysis : A Practical Approach, Macmillan Publishing Co, Inc, New York.
6. M.K. Jain, S.R.K. Lyengar, R.K. Jain, Numerical Methods-Problems and solutions, New Age international (P) Ltd. 1996.
7. M.K. Jain, S.R.K. Lyengar, R.K. Jain, Numerical Methods for Scientific and Engineering Computation, New Age International (P) Ltd., 1999.
8. R.Y. Rubinstein : Simulation and the Monte Carlo Methods, John Wiley, 1981.

All Rights Reserved by:
Directorate of Distance of Education
Kurukshetra University, Kurukshetra